



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2018/भाद्र 21, 1940

No. 634]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2018/BHADRA 21, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 866(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कैटीन कर्मचारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कैटीन कर्मचारी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना :** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (I) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/ पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता :** वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 सहायक प्रबंधक सह-भंडारी	01 * (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित अनुसूचिवीय।	स्तर - 4 (25500-81100 रु.)	अचयन।	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। रोजगार समाचार/समाचार पत्र में पद विज्ञापित करने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन मांगे जाते हैं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक के साथ पुस्तक	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो

<p>रख-रखाव या भंडार के रख-रखाव में एक वर्ष का डिप्लोमा।</p> <p>(ख) अनुभव - किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडार या लेखा प्रबंधन में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण—1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण—2 अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
--	--	--	----------------------------

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।</p> <p>(11)</p> <p>प्रोन्नति : (i) ऐसे क्लर्क जिन्होंने स्तर—2 (19900-63200 रु.) में कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(ii) ऐसे हलवाई-सह-रसोईया जिन्होंने स्तर—3 (19900-63200 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और भंडार या लेखा के प्रबंधन में दो वर्ष का अनुभव हो और क्लर्क सीधी भर्ती के लिए विहित की गयी शैक्षिक अर्हता रखते हों अर्थात् वाणिज्य से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p>टिप्पण 1. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षसे, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो, या</p> <p>(ii) जिन्होंने स्तर-2 (19900-63200 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।					भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)					(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति /पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-					संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. उप सचिव - अध्यक्ष					
2. अवर सचिव (स्थापना) - सदस्य					
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बाह्य अवर सचिव - सदस्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हलवाई-सह-रसोईया	1 * (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर - 3 (21700-69100 रु.)	अचयन।	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। रोजगार समाचार/समाचार पत्र में पद विज्ञापित करने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन मांगे जाते हैं।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ-साथ खान-पान प्रबन्ध में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा। (ख) अनुभव – सरकारी विभाग या उपक्रम में दो वर्ष के अनुभव को अधिमान। (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए खाना बनाने का व्यावसायिक कुशल परीक्षण आयोजित किया जायेगा। टिप्पण— अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने स्तर-2 (19900-63200 रु.) में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो, या

(ii) जिन्होंने सहायक हलवाई-सह-रसोइया के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति /पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप सचिव - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापना) - सदस्य 3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बाह्य अवर सचिव - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक हलवाई-सह-रसोइया	1* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	अचयन।	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। रोजगार समाचार/समाचार पत्र में पद विज्ञापित करने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन मांगे जाते हैं।

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा अर्त्तीर्ण के साथ खान-पान प्रबंधन करने का प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा।</p> <p>(ख) अनुभव- सरकारी विभागीय उपक्रम में खान-पान प्रबंध करने के एक वर्ष के अनुभव को अधिमान।</p> <p>(ग) अभ्यार्थी की उपयुक्तता विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा आयोजित खाना बनाने के लिए व्यवस्थित कौशल परीक्षण जिसमें स्वच्छता का अनुरक्षण आदि भी शामिल है। से निर्धारित की जाएगी।</p> <p>टिप्पण— अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति : ऐसे कैटीन परिचारक जिन्होंने स्तर-1 (18000-56900 रु.) में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>खाना बनाने जिसमें स्वच्छता का अनुरक्षण भी शामिल है के निर्देश के साथ विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा व्यवसायिक परीक्षण को आयोजित किया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 1:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-</p> <p>(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो, या</p> <p>(ii) जिन्होंने कैटीन परिचारक के रूप में स्तर-1 (18000-56900 रु.) में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और हलवाई-सह-रसोइया के सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव हो; और</p> <p>(iii) खान-पान प्रबंध में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा रखते हो।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि / प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप सचिव - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापना) - सदस्य 3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बाह्य अवर सचिव - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. क्लर्क	2* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-2 (19900- 63200 रु.)	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। रोजगार समाचार/समाचार पत्र में पद विज्ञापित करने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन मांगे जाते हैं।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वाणिज्य से 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण हो। (ख) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की कुंजी दाब औसत पर प्रति घंटा 10500 कुंजी दाब/9000 कुंजी दाब के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) टिप्पण—1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण—2 अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे कैन्टीन परिचारक जिन्होंने स्तर-1 (18000-56900 रु.) में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। क्लर्क के पद पर प्रोन्नति के लिए कैन्टीन परिचारक के लिए आईएसटीएम या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से संघटनात्मक व्यवहार, संसूचना कौशल और लेखा व्यवहार से दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछनीय होगा। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप सचिव - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापना) - सदस्य 3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बाह्य अवर सचिव - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.कैंटीन परिचारक	07* (2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। रोजगार समाचार/समाचार पत्र में पद विज्ञापित करने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन मांगे जाते हैं।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि / प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप सचिव - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापना) - सदस्य 3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बाह्य अवर सचिव - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-42011/1/2017-स्थापना]

अशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2018

G.S.R. 866(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Canteen Staff in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, namely :-

- 1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Canteen Staff (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application .-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of post, classification, level in the pay matrix .-** The number of said posts, their classification, level in the pay matrix attached to the said posts shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. .-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. Disqualification .-** No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Manager-cum-Store Keeper.	01* (2018). *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -4 (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Between 18 and 25 years, (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government.) Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/ Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(a) B.Com from a recognised university; or Graduate in any discipline from a recognised university with one year diploma in Book Keeping or Store Keeping. (b) Experience – Three years in handling Stores or Accounts in a Government Department or Undertaking. Note 1.- Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualification(s) regarding experience is /are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

belonging to Schedules Castes/ Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
<p>Promotion :</p> <p>(i) Clerks with atleast eight years regular service in level-2 (Rs.19900-63200); or (ii) Halwai-cum-Cook with five years regular service in level-3 (Rs.21700-69100) and with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualification as prescribed for direct recruited Clerk i.e. 12th Class Pass with Commerce.</p> <p>Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation :</p> <p>Officers of the Central Government – (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with eight years regular service in level -2 (Rs.19900-63200); and (b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruit under column (7).</p> <p>Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2.- The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :</p> <p>(1) Deputy Secretary - Chairman (2) Under Secretary (Establishment) - Member; (3) Under Secretary outside the Ministry of Petroleum and Natural Gas - Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Halwai-cum-Cook.	01* (2018). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -3 (Rs.21700-69100).	Non-Selection.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.). Note 1 .- The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) 10th Class Pass from recognised board with Certificate or Diploma in catering.</p> <p>(b) Experience -two years in a Govt. Department or Undertaking preferred.</p> <p>(c) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate.</p> <p>Note : The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years.	By Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years regular service in level-2 (Rs.19900-63200).</p> <p>Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government – (a)(i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in level-2 (Rs.19900-63200); and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Secretary -Chairman</p> <p>(2) Under Secretary (Establishment) – Member;</p> <p>(3) Under Secretary outside the Ministry of Petroleum and Natural Gas -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

<p>organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2.- The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Halwai-cum-Cook.	01* (2018). * Subject to variation on workload.	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200).	Non-Selection.	<p>Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.).</p> <p>Note :- The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) 10th Class Pass from recognised board with Certificate or Diploma in catering.</p> <p>(b) Experience - One year catering experience in a Govt. Department or Undertaking preferred.</p> <p>(c) A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate.</p> <p>Note : The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Canteen Attendant in level-1 (Rs.18000-56900) with atleast three years of regular service.</p> <p>A Trade test shall be conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene etc.</p> <p>Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Secretary – Chairman</p> <p>(2) Under Secretary (Establishment) – Member;</p> <p>(3) Under Secretary outside the Ministry of Petroleum and Natural Gas - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

<p>have already completed such qualifying / eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government – (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) Canteen Attendant in level-1 (Rs.18000-56900) with atleast three years regular service having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook; and (iii) possessing certificate or diploma in catering.</p> <p>Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2:- The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Clerk.	02* (2018). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200).	Non-Selection.	<p>Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.).</p> <p>Note 1 .- The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) 12th Class Pass or equivalent in Commerce from recognised board.</p> <p>(b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depression Per Hour/9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word).</p> <p>Note 1.- Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2.- The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by Direct Recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Canteen Attendant with atleast three years regular service in Level-1 (Rs.18000-56900).</p> <p>A two week training on Organisational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from ISTM or any other institute recognised by Government of India or State Government.</p> <p>Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Secretary – Chairman</p> <p>(2) Under Secretary (Establishment) – Member;</p> <p>(3) Under Secretary outside the Ministry of Petroleum and Natural Gas - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Canteen Attendant.	07* (2018). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs.18000-56900).	Not Applicable.	<p>Between 18 and 25 years. (Relaxation of age limit upto the age of forty years for Government servants) in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>Note 1 .- The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.</p>	Matriculation pass from recognised board.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not Applicable.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Secretary – Chairman</p> <p>(2) Under Secretary (Establishment) – Member;</p> <p>(3) Under Secretary outside the Ministry of Petroleum and Natural Gas - Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No.A-42011/1/2017-Estt.]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.